

# Num

## Chapter 19

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר: 1  
और-से-मूसा से-यहोवा-ने और-कहा  
H03529 H0175 H0413 H4872 H0413 H3068 H1696

यहोवा ने मूसा और हारून से बात की। उसने कहा,

וְאֵת חֻקֹּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר-צִוָּה אֲנִי אֶת-יְהוָה לֵאמֹר בֹּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל 2  
इसाएल-के पुत्रों से-बोल कहते-हुए यहोवा-ने आज्ञा-दी जो-व्यवस्था-की विधि यह  
H33478 H0413 H1696 H0559 H3068 H6680 H8451 H2708 H2063

וַיְקַח וְיָקָח אֵלָיו פָּרֶה גַּיְלָה לֹא-אֲשָׁר מוֹם בְּהֵמָה אֵינָּה-אִשָּׁר יְקַח אֵלָיו 3  
चढ़ा नहीं-जिस-पर दोष उसमें नहीं-है-जिसमें निर्दोष लाल गाय तेरे-पास और-वे-लाएं  
H5927 H3800 H0369 H8549 H6510 H0413 H3947

וְעָלָה עִלָּיָהּ 4  
जुआ उस-पर  
H5923

“ये नियम और उपदेश हैं जिन्हें यहोवा इस्राएल के लोगों को देता है। उन्हें दोष से रहित एक लाल गाय लेनी चाहिए और उसे तुम्हारे पास लाना चाहिए। उस गाय को कोई खरोंच भी न लगी हो और उस गाय के कंधे पर कभी जुआ अपनी उंगलियों पर लागाना चाहिए और उसे कुछ खून नहीं रखा गया हो।

וַיִּנְתְּנֵם וְנָתַתְּ אֵת-אֵלֶיךָ אֶת-אֵלֶיךָ אֶת-אֵלֶיךָ 3  
छावनी-के बाहर के-उसे और-वह-निकाले याजक एलीआजार को-उसे और-तुम-देना  
H4264 H2351 H0413 H0853 H3318 H3548 H0499 H0413 H0853 H5414

וְשָׂטַט וְשָׂטַט וְשָׂטַט 4  
उसके-सामने उसे और-वह-वध-करे  
H6440 H0853

इस गाय को याजक एलीआजार को दो। एलीआजार गाय को डेरे से बाहर ले जाएगा और वह वहाँ गाय को मारेगा।

וְלָקַח וְלָקַח וְלָקַח 4  
तम्बू-मुख सामने के-और-वह-छिड़के अपनी-उंगली-से उसके-लहू-से याजक एलीआजार और-ले  
H0168 H6440 H5227 H0413 H0676 H1818 H3548 H0499 H3947

וְשָׂטַט וְשָׂטַט 4  
बार सात उसके-लहू-से मिलापवाले-के  
H6471 H7651 H1818 H4150

तब याजक एलीआजार को इसका कुछ खून अपनी उंगलियों पर लागाना चाहिए और उसे कुछ खून पवित्र तम्बू की दिशा में छिड़कना चाहिए। उसे यह सात बार करना चाहिए।

וְשָׂרַף וְשָׂרַף 5  
और-को-उसका-मांस और-को-उसकी-खाल को-उसकी-आंखों-के-सामने गाय को-और-वह-जलाए  
H0853 H1320 H0853 H5785 H0853 H6510 H0853 H8313

וְשָׂרַף 5  
वह-जलाए उसकी-गोबर समेत-उसका-लहू  
H8313 H6569 H1818

तब पूरी गाय को उसके सामने जलाना चाहिए। चमड़ा, माँस, खून और और आतें सभी जला डालनी चाहिए।

שָׂרַפְתָּ	בֵּינָה	אֶל-	וְהַשְׁלִיךְ	תּוֹלַעַת	וּשְׁנֵי	וְאֶזוּב	אֶרֶז	עֵץ	הַכֹּהֵן	וְלָקַח	6
जलावट-की	बीच	के-	और-वह-डाले	कीड़ा	और-लाल	और-जूफा	देवदार-की	लकड़ी	याजक	और-ले	
<a href="#">H8316</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7993</a>		<a href="#">H8144</a>	<a href="#">H0231</a>	<a href="#">H0730</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H3947</a>	

הַפָּרָה:  
गाय-की  
[H6510](#)

तब याजक को एक देवदारु की लकड़ी, एक जूफा की शाखा और लाल रंग का कपड़ा लेना चाहिए। याजक को इन चीजों को उस आग में डालना चाहिए जिसमें गाय जल रही हो।

הַמַּחֲנֶה	אֶל-	יְבוּא	וְאָחֵר	בְּמֵי	בְּשָׂרוֹ	וְרִחָן	הַכֹּהֵן	בְּנֵי	וְכִבֵּס	7
छावनी	के-	वह-आए	और-बाद-में	पानी-में	अपना-शरीर	और-वह-नहाए	याजक	अपने-कपड़े	और-धोए	
<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H3548</a>		<a href="#">H3526</a>	

וְטָמֵא  
और-अशुद्ध-होगा  
הַכֹּהֵן  
याजक  
עַד-  
तक-  
הָעֶרְבַּ:  
सांझ  
[H6153](#) [H5704](#) [H3548](#)

तब याजक को, अपने को तथा अपने कपड़ों को पानी से धोना चाहिए। तब उसे डेरे में लौटाना चाहिए। याजक सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

וְטָמֵא	בְּמֵי	בְּשָׂרוֹ	וְרִחָן	בְּמֵי	בְּנֵי	וְכִבֵּס	אֹתָהּ	וְהַשְׁרִיף	8
और-अशुद्ध-होगा	पानी-में	अपना-शरीर	और-वह-नहाए	पानी-में	अपने-कपड़े	वह-धोए	उसे	और-जो-जलाता-है	
	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H4325</a>		<a href="#">H3526</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8313</a>	

הָעֶרְבַּ:  
सांझ  
עַד-  
तक-  
[H6153](#) [H5704](#)

जो व्यक्ति गाय को जलाए उसे अपने को तथा अपने वस्त्रों को पानी से धोना चाहिए। वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा।

טְהוֹר	בְּמָקוֹם	לְמַחֲנֶה	מִחוּץ	וְהִנִּיחַ	הַפָּרָה	אֶפֶר	אֵת	טְהוֹר	אִישׁ	וְאִסַּף	9
शुद्ध	में-जगह	छावनी-के	बाहर	और-वह-रखे	गाय-की	राख	को	शुद्ध	आदमी	और-इकट्ठा-करे	
<a href="#">H2889</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H2351</a>	<a href="#">H3240</a>	<a href="#">H6510</a>	<a href="#">H0665</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2889</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0622</a>	

הוּא:	חַטָּאת	נָדָה	לְמִי	לְמִשְׁמַרְתָּ	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי-	לְעֵרֹת	וְהִוָּתַתָּ	
वह-है	पापबलि	अशुद्धता-दूर-करने-के	पानी-के-लिए	सुरक्षा-के-लिए	इस्राएल-के	पुत्रों-	के-लिए-मण्डली	और-वह-होगी	
<a href="#">H1931</a>		<a href="#">H5079</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H1961</a>	

“तब एक पुरुष जो शुद्ध होगा, गाय की राख को इकट्ठा करेगा। वह इस राख को डेरे के बाहर एक शुद्ध स्थान पर रखेगा। यह राख उस समय उपयोग में आएगी जब लोग शुद्ध होने के लिए विशेष संस्कार करेंगे। यह राख व्यक्ति के पाप को दूर करने के लिए उपयोग में आएगी।

הָעֶרְבַּ	עַד-	וְטָמֵא	בְּנֵי	אֶת-	הַפָּרָה	אֶפֶר	אֶת-	הָאִסָּף	וְכִבֵּס	10
सांझ	तक-	और-अशुद्ध-होगा	अपने-कपड़े	को-	गाय-की	राख	को-	जो-इकट्ठा-करता-है	और-धोए	
<a href="#">H6153</a>	<a href="#">H5704</a>			<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6510</a>	<a href="#">H0665</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0622</a>	<a href="#">H3526</a>	

עוֹלָם:	לְחֻקָּתָ	בְּתוֹכָם	הַגֵּר	וְלִגְרֵ	יִשְׂרָאֵל	לְבָנָי	וְהִוָּתַתָּ	
सदा-की	विधि-के-रूप-में-	उनके-बीच-में	परदेशी	और-परदेशी-के-लिए	इस्राएल-के	के-लिए-पुत्रों	और-वह-होगी	
<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H2708</a>	<a href="#">H8432</a>		<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H1961</a>	

“वह व्यक्ति, जिसने गाय की राख को इकट्ठा किया, अपने कपड़े धोएगा। वह सन्ध्या तक अशुद्ध रहेगा। “यह नियम सदा चलता रहेगा। यह नियम इस्राएल के नागरिकों के लिए है और यह उन विदेशियों के लिए भी है जो तुम्हारे बीच रहते हैं।

יָמִים:	שְׁבַעַת	וְטָמֵא	אֶדָם	נֶפֶשׁ	לְכָל-	בְּמַת	הַנֹּגֵעַ	11
दिन	सात	और-अशुद्ध-होगा	आदमी-के	प्राण	किसी-भी-	में-लाश	जो-छूता-है	
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7651</a>		<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H5060</a>	

यदि कोई व्यक्ति एक मरे व्यक्ति को छूता है, तो वह सात दिन के लिए अशुद्ध हो जाएगा।

וְאִם- और-यदि-	יִטְהַר वह-शुद्ध-होगा	הַשְּׂבִיעִי सातवें	וּבְיָמָיו और-में-दिन	הַשְּׁלִישִׁי तीसरे	בְּיוֹם में-दिन	כּוּ उससे	יִתְחַטֵּא- अपने-आपको-शुद्ध-करे-	הוּא वह	12
	<a href="#">H2891</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7992</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H1931</a>	

יִטְהַר: वह-शुद्ध-होगा	לֹא नहीं	הַשְּׂבִיעִי सातवें	וּבְיָמָיו और-में-दिन	הַשְּׁלִישִׁי तीसरे	בְּיוֹם में-दिन	יִתְחַטֵּא वह-अपने-आपको-शुद्ध-करे	לֹא नहीं
<a href="#">H2891</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7992</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H3808</a>

उसे अपने को तीसरे दिन तथा फिर सातवें दिन विशेष पानी से धोना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो वह अशुद्ध रह जाएगा।

יִתְחַטֵּא वह-अपने-आपको-शुद्ध-करता-है	וְלֹא और-नहीं	יָמוֹת वह-मरता-है	אֲשֶׁר- जो-	הָאָדָם आदमी-के	בְּנֶפֶשׁ में-प्राण	בְּמַת में-लाश	הַנֶּזֶע जो-छूता-है	כָּל- सब-	13
<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4191</a>		<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H3605</a>	

מִי पानी	כִּי क्योंकि	מִיִּשְׂרָאֵל इस्राएल-से	הָהוּא वह	הַנֶּפֶשׁ प्राण	וְנִכְרְתָהּ और-काटा-जाएगा	טָמֵא वह-अशुद्ध-करता-है	יְהוּה यहोवा-का	מִשְׁכָּן निवास	אֶת- को-
<a href="#">H4325</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3772</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H0853</a>

בּוֹ: उसमें	טָמְאָתוֹ उसकी-अशुद्धता	עוֹד अभी-भी	יְהוּה वह-होगा	טָמֵא अशुद्ध	עָלָיו उस-पर	זָרַק छिड़का-गया	לֹא- नहीं-	נָדָה अशुद्धता-दूर-करने-का
	<a href="#">H2932</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H2931</a>		<a href="#">H2236</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5079</a>

यदि कोई व्यक्ति किसी शव को छूता है, तो वह व्यक्ति अशुद्ध है। यदि वह व्यक्ति अशुद्ध रहता है और तब पवित्र तम्बू में जाता है तो पवित्र तम्बू अशुद्ध हो जाती है। इसलिए उस व्यक्ति को इस्राएल के लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए। यदि अशुद्ध व्यक्ति पर विशेष जल नहीं डाला जाता तो वह व्यक्ति अशुद्ध रहेगा।

וְכָל- और-सब-	הָאֶהָל तम्बू	אֶל- के-	הַבָּא जो-आता-है	כָּל- सब-	בְּאֶהָל में-तम्बू	יָמוֹת वह-मरता-है	כִּי- जब-	אָדָם आदमी	הַתּוֹרָה व्यवस्था	זָאת यह	14
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4191</a>		<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H2063</a>	

אֲשֶׁר जो	בְּאֶהָל तम्बू-में-है	יָטָמֵא अशुद्ध-होगा	שִׁבְעַת सात	יָמִים: दिन
	<a href="#">H0168</a>		<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3117</a>

“यह नियम उन लोगों से सम्बन्धित है जो अपने खेमों में मरते हैं। यदि कोई व्यक्ति खेमों में मरता है तो उस खेमे का हर एक व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा। वे सात दिन तक अशुद्ध रहेंगे।”

וְכָל- और-सब	כָּלִי पात्र	פְּתוּחָה खुला-हुआ	אֲשֶׁר जिस-पर	אֵין- नहीं-है-	צְמִיד बंधन	פְּתִיל डोरी-का	עָלָיו उस-पर	טָמֵא अशुद्ध	הוּא: वह-है	15
	<a href="#">H3627</a>			<a href="#">H0369</a>		<a href="#">H6616</a>		<a href="#">H2931</a>	<a href="#">H1931</a>	

और हर एक ढक्कन रहित बर्तन और घड़ा अशुद्ध हो जाता है।

וְכָל- और-सब	אֲשֶׁר- जो-	יָנַע वह-छूता-है	עַל- पर-	פִּנּוּ मुख	הַשָּׂרָה खेत-के	בְּחִלְלָה- में-मारे-गए-	חֶרֶב तलवार	אוּ या	בְּמַת में-लाश	אוּ- या-	16
		<a href="#">H5060</a>		<a href="#">H6440</a>			<a href="#">H2719</a>		<a href="#">H4191</a>		

בְּעֵצִים में-हड्डी	אָדָם आदमी-की	אוּ या	בְּקִבְרָה में-कब्र	יָטָמֵא अशुद्ध-होगा	שִׁבְעַת सात	יָמִים: दिन
<a href="#">H6106</a>	<a href="#">H0120</a>		<a href="#">H6913</a>		<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3117</a>

यदि कोई शव को छूता है, तो वह व्यक्ति सात दिन तक अशुद्ध रहेगा। यह तब भी सत्य होगा जब व्यक्ति बाहर देश में मरा हो या युद्ध में मारा गया हो। यदि कोई व्यक्ति मरे व्यक्ति की हड्डी या किसी कब्र को छूता है तो वह व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है।

וְלִקְחוּ और-वे-लें	לְטָמֵא के-लिए-अशुद्ध	מֵעֶפֶר से-धूल	שָׂרָפָה जलावट-की	הַחֲטָאִת पापबलि-की	וְנָתַן और-वह-डाले	עָלָיו उस-पर	מַיִם पानी	חַיִּים जीवित	אֶל- के-	17
	<a href="#">H2931</a>	<a href="#">H6083</a>	<a href="#">H8316</a>		<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H4325</a>		<a href="#">H0413</a>	

כָּלִי:  
पात्र  
[H3627](#)

“इसलिए तुम्हें दुग्ध गाय की राख का उपयोग उस व्यक्ति को पुनः शुद्ध करने के लिए करना चाहिए। स्वच्छ पानी घड़े में रखी हुई राख पर डालो।

וְלֶקַח	אָזוֹב	וְטָבַל	בְּמַיִם	אִישׁ	טָהוֹר	וְהָיָה	עַל-	הָאֶהָל	וְעַל-	כָּל-	18
और-ले	जूफ़ा	और-डुबोए	पानी-में	आदमी	शुद्ध	और-वह-छिड़के	पर-	तम्बू	और-पर-	सब-	
<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0231</a>	<a href="#">H2881</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H2889</a>			<a href="#">H0168</a>		<a href="#">H3605</a>	
הַכֵּלִים	וְעַל-	הַנְּפֹשׁוֹת	אֲשֶׁר	הָיוּ	שָׁם	וְעַל-	הַנְּזִיעַ	בְּעֵצִים	אוּ	בְּחִלְלֵל	
पात्रों	और-पर-	प्राणियों	जो	थे-	वहाँ	और-पर-	जो-छूता-है	में-हड्डी	या	में-मारे-गए	
<a href="#">H3627</a>		<a href="#">H5315</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8033</a>		<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H6106</a>			
אוּ	בְּמַת	אוּ	בְּקִבְרֵי:								
या	में-लाश	या	में-कब्र								
	<a href="#">H4191</a>		<a href="#">H6913</a>								

शुद्ध व्यक्ति को एक जूफ़ा की शाखा लेनी चाहिए और इसे पानी में डुबाना चाहिए। तब उसे तम्बू, बर्तनों तथा ढेरों में जो व्यक्ति हैं उन पर यह जल छिड़कना चाहिए। तुम्हें यह उन सभी व्यक्तियों के साथ करना चाहिए जो शव को छुएंगे। तुम्हें यह उस के साथ भी करना चाहिए जो युद्ध में मरे व्यक्ति के शव को छूता है या उस किसी के साथ भी जो किसी मरे व्यक्ति की हड्डियों या क्रब को छूता है।

וְהָיָה	הַטָּהוֹר	עַל-	הַטָּהוֹר	בַּיּוֹם	הַשְּׁלִישִׁי	וּבַיּוֹם	הַשְּׂבִיעִי	וְחָטְאוּ	19
और-छिड़के	जो-शुद्ध-है	पर-	अशुद्ध	में-दिन	तीसरे	और-में-दिन	सातवें	और-वह-उसे-पवित्र-करे	
<a href="#">H2889</a>			<a href="#">H2931</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7992</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H2398</a>	
בַּיּוֹם	הַשְּׂבִיעִי	וְכִבֵּס	בְּגָדָיו	וְרַחֵץ	בְּמַיִם	וְטָהַר	בְּעֶרְבֹ:		
में-दिन	सातवें	और-वह-धोए	अपने-कपड़े	और-वह-नहाए	पानी-में	और-शुद्ध-होगा	सांझ-को		
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H3526</a>		<a href="#">H7364</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H2891</a>	<a href="#">H6153</a>		

“तब कोई शुद्ध व्यक्ति इस जल को अशुद्ध व्यक्ति पर तीसरे दिन और फिर सातवें दिन छिड़के। सातवें दिन वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। उसे अपने कपड़ों को पानी में धोना चाहिए। वह संध्या के समय पवित्र हो जाता है।

וְאִישׁ	אֲשֶׁר-	יִטְמָא	וְלֹא	יִטְמָא	וְהָיָה	וְנִכְרַתָּהּ	הַנְּפֹשׁ	הַהוּא	20
और-आदमी	जो-	अशुद्ध-होता-है	और-नहीं	अशुद्ध-होता-है	वह-अपने-आपको-शुद्ध-करता-है	और-काटा-जाएगा	प्राण	वह	
<a href="#">H0376</a>			<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H1931</a>	
מִתּוֹךְ	הַקְּהָל	כִּי	אֶת-	מִקְדָּשׁ	יְהוָה	מֵי	נָדָה	לֹא-	
से-बीच	सभा	क्योंकि	को-	पवित्रस्थान	यहोवा-का	पानी	अशुद्धता-दूर-करने-का	नहीं-	
<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H6951</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4720</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H5079</a>	<a href="#">H3808</a>	
זָרַק	עָלָיו	טָמֵא	הוּא:						
छिड़का-गया	उस-पर	अशुद्ध	वह-है						
<a href="#">H2236</a>	<a href="#">H2931</a>	<a href="#">H1931</a>							

“यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है और शुद्ध नहीं होता तो उसे इसाएल के लोगों से अलग कर देना चाहिए। उस व्यक्ति पर विशेष पानी नहीं छिड़का गया। वह शुद्ध नहीं हुआ। तो वह पवित्र तम्बू को अशुद्ध कर सकता है।

וְהָיָה	לְהֵם	לְחֻקָּת	עוֹלָם	וּמִזָּה	מֵי-	הַנְּדָה	יִכַּבֵּס	21
और-वह-होगी	उनके-लिए	विधि-के-रूप-में-	सदा-की	और-जो-छिड़कता-है	पानी-	अशुद्धता-दूर-करने-का	वह-धोए	
<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H2708</a>	<a href="#">H5769</a>		<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H5079</a>	<a href="#">H3526</a>	
בְּגָדָיו	וְהַנְּזִיעַ	בְּמַיִם	הַנְּדָה	יִטְמָא	עַד-	הָעֶרְבֹ:		
अपने-कपड़े	और-जो-छूता-है	पानी-में-	अशुद्धता-दूर-करने-के	अशुद्ध-होगा	तक-	सांझ		
<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H5060</a>		<a href="#">H5079</a>		<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H6153</a>		

यह नियम तुम्हारे लिए सदा के लिए होगा। जो व्यक्ति इस विशेष जल को छिड़कता है, उसे भी अपने कपड़े अवश्य धो लेने चाहिए। कोई व्यक्ति जो इस विशेष जल को छुएगा, वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा।

וְכָל	אֲשֶׁר-	יָנַע-	בּוֹ	הַטָּהוֹר	יִטְמָא	וְהַנְּפֹשׁ	הַנְּזִיעַת	עַד-	הָעֶרְבֹ:	22
और-सब	जिसे-	वह-छूता-है-	उसे	अशुद्ध	अशुद्ध-होगा	और-प्राण	जो-छूता-है	तक-	सांझ	
<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H5060</a>		<a href="#">H2931</a>		<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H5060</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H6153</a>	

| यदि कोई अशुद्ध व्यक्ति किसी अन्य को छूए, तो वह व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति संध्या तक अशुद्ध रहेगा।”